



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट दिनांक 30/03/23

थाना नकुड, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर वांछित चोर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाईकिल व नाजायाज चाकू बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में, वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी व वाहन चेकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड पुलिस द्वारा मु0अ0स0 460/22 धारा 414/465 भादवि में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त विपिन पुत्र विनोद निवासी ग्राम ढायकी थाना नकुड जिला सहारनपुर हाल निवासी राधा कृष्णा कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को एक फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मो0सा0 स्पेलण्डर प्लस चैसिस नम्बर MBLHAR078JHK28*** ,ईजन नम्बर HA10AGJHK55884 व एक नाजायाज चाकू के साथ खेडा कुटी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाईकिल स्पेलण्डर प्लस व नाजायाज चाकू के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0सं 114/23 धारा 414/465 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम विपिन उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभि0 को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

विपिन पुत्र विनोद निवासी ग्राम ढायकी थाना नकुड जिला सहारनपुर हाल निवासी राधा कृष्णा कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 1.एक मो0सा0 स्पेलण्डर प्लस चैसिस नम्बर MBLHAR078JHK28***, ईजन नम्बर HA10AGJHK55884 (फर्जी नम्बर प्लेट लगी है)
- 2.एक नाजायाज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना नकुड जिला सहारनपुर
3. का0 1501 मोहित कुमार थाना नकुड जिला सहारनपुर
4. का0 2351 शमशाद अली थाना नकुड जिला सहारनपुर
5. का0 326 रिकू थाना नकुड जिला सहारनपुर



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट दिनांक 30/03/23

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि कल दिनांक 29.03.2023 को थाना नानौता क्षेत्रान्तर्गत कस्बा नानौता में दो पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर आपस में कहा सुनी व मारपीट हो गयी जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 062/23 धारा 147/149/323/504/506 भादवि व मु0अ0स0 063/23 धारा 354क/323/504/506 भादवि व 3(1)दध/3(2)5क एससी एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था। जिनकी विवेचना क्षेत्राधिकारी गंगोह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में वांछितो/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह, जनपद सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नानौता के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा अभियुक्तगण- 1. हैदर अली पुत्र नाजिम हुसैन 2. आमिर हसन पुत्र काजिम हुसैन निवासीगण मौ0 छत्ता कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0स0 063/23 धारा 354क/323/504/506 भादवि व 3(1)दध/3(2)5क एससी एसटी एक्ट व अभियुक्तगण 1. शशिकान्त पुत्र रामस्वरूप 2. रोमीकान्त पुत्र इन्द्राज निवासीगण मौ0 सरवाज्ञान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0स0 062/23 धारा 147/149/323/504/506 भादवि को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण का नाम व पता :-

1. हैदर अली पुत्र नाजिम हुसैन निवासी मौ0 छत्ता कस्बा व थाना सहारनपुर
2. आमिर हसन पुत्र काजिम हुसैन निवासी मौ0 छत्ता कस्बा व थाना सहारनपुर
3. शशिकान्त पुत्र रामस्वरूप निवासी मौ0 सरवाज्ञान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. रोमीकान्त पुत्र इन्द्राज निवासी मौ0 सरवाज्ञान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: -

1. थानाध्यक्ष श्री चन्द्रसैन सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर ,
2. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर,
3. है0का0 302 ललित चौहान थाना नानौता जनपद सहारनपुर,
4. है0का0 830 राहुल शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट दिनांक 30.03.2023

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में वांछित / वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस द्वारा दिनांक 29.03.2023 की रात्रि को 01 वारन्टी अभियुक्त **मुस्तकीम पुत्र केमदीन निवासी ग्राम माजरी खुर्द थाना सरसावा जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या – 3014/23, अ0सं0 – 402/2022, धारा – 308,341 IPC थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से मा0न्यायलय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुस्तकीम पुत्र केमदीन निवासी ग्राम माजरी खुर्द थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री दीपक कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 2.है0कां0 886 रोहित कुमार, थाना सरसावा सहारनपुर
- 3.कां0 1531 विक्रान्त दांगी, थाना सरसावा सहारनपुर।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट दिनांक 30.03.2023

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू के साथ 01 को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की चैकिंग हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस द्वारा दिनांक-30.03.2023 को अभियुक्त **जावेद पुत्र सहीद निवासी मौ० हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को टीचर कालोनी से समय करीब - 06.15 बजे एक अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु०अ०स० 080/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को समय से मा०न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि जावेद एक गुण्डा किस्म का व्यक्ति है जो अपनी धाक दिखाने व लोगों का डराने धमकाने के लिए चाकू रखता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जावेद पुत्र सहीद नि० मौ० हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० श्री रविन्द्र सिंह नागर, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 2.कां० 136 हरदयाल सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 3.कां० 2391 सोनू कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट दिनांक 30.03.2023

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 28.03.2023 को वादी श्री अक्षय पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम सांपली थाना सरसावा सहारनपुर द्वारा थाना सरसावा पर अभियुक्तगण मनोज पुत्र रमेश निवासी ग्राम सांपली थाना सरसावा सहारनपुर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडे व धारदार हथियारों से खेत में काम कर रहे उनके पिता बाबूराम से गाली गलोच कर मारपीट कर जान से मारने की नियत से सिर पर वार करने व धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 – 077/2023 धारा 323/307/504/506 IPC पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की चैकिंग हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना सरसावा द्वारा टीम गठित की गयी जिसके द्वारा ग्राम सांपली से अभियुक्त मनोज पुत्र रमेश निवासी ग्राम सांपली थाना सरसावा सहारनपुर को घटना में प्रयुक्त 01 डंडे सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मनोज पुत्र रमेश निवासी ग्राम सांपली थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री नरेश सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. कां0 136 हरदयाल, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. कां0 2391 सोनू कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट दिनांक 30.03.2023

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में, संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारन्टियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार श्री प्रमोद कुमार गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा दिनांक 29.03.23 की रात्रि को थाना सदर बाजार से पूर्व में वाहन चोरी व चैन स्नैचिंग जैसे अपराधो के कई मुकदमो में जेल जा चुके शातिर अपराधी एवं थाना सदर बाजार से ही गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के वांछित अभियुक्त **रविन्द्र उर्फ बिट्टू पुत्र जयपाल निवासी उदानापट्टी थाना रमाला जनपद बागपत** को उदानापट्टी ग्राम, थाना रमाला जनपद बागपत से समय किया गया। श्री प्रमोद कुमार गौतम प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा समाज को अपराध मुक्त करने के लिये अपराधियो के विरुद्ध लगातार कठोर कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त रविन्द्र उर्फ बिट्टू पुत्र जयपाल निवासी उदानापट्टी ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 देवेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार, सहारनपुर
2. है0का0 574 अश्वनी थाना सदर बाजार, सहारनपुर
3. का0 225 बबलू कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर



दिनांक: 30-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध पशु कटान के अपराध में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में वान्छित/वारण्टी अभियुक्तों का गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी कुतुबशेर श्री सतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 21/23 धारा 420/429/269 आईपीसी में वांछित अभियुक्त अकरम उर्फ छोटा पुत्र सलीम निवासी इमली रोड हिजडो वाली गली नूर मस्जिद के पास , रुडकी हरिद्वार उत्तराखंड को आज दिनांक 30.03.2023 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त अकरम उर्फ छोटा उपरोक्त ने बताया कि मेरी रूडकी में मीट की दुकान होल सैल की दुकान है। मीट की माँग अधिक होने के कारण हम लोग नदीम कालोनी सहारनपुर में बने कमले से पशुओं को काटकर माँस अपनी गाड़ियों में भरकर रूडकी लेकर आते हैं। जिससे हमें अच्छी आमदनी हो जाती है। दिनांक 20.01.23 को हमारी अवैध मीट से भरी गाड़ी को कुतुबशेर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था। यह मीट हम कमले से अवैध रूप से भरकर लाते थे तथा उस मीट को रूडकी व आस पास के क्षेत्रों में इधर उधर बेच देते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अकरम उर्फ छोटा पुत्र सलीम निवासी इमली रोड हिजडो वाली गली नूर मस्जिद के पास , रुडकी हरिद्वार उत्तराखंड

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 21/23 धारा 420/429/269 भादवि चालानी थाना कुतुबशेर सहारनपुर